



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 23 नवम्बर, 2022

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना छतारी

थाना छतारी पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में व्यापारी के अपहरण में वांछित 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 22/23.11.2022 की रात्रि में थाना छतारी पुलिस टीम पंड्रावल-पहासू रोड पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामू थी इसी दौरान पुलिस टीम को अभिसूचना प्राप्त हुई कि व्यापारी के अपहरण में वांछित चल रहे बदमाश बाइक पर सवार होकर पहासू से पंड्रावल की ओर आ रहे हैं। तत्काल थाना छतारी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पंड्रावल से पहासू जाने वाले रोड पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बाइक सवार बदमाश तेज गति से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बाइक को चक रोड़ पर मोड़ दिया जिससे 20-25 कदम दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश मौके से फरार हो गया जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. सौरभ गुर्जर पुत्र नरेश निवासी हसनपुर कलाँ थाना किठौर जनपद मेरठ के रूप में हुई हैं।** जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत मुअसं-999/22 धारा 364 भादवि , मुअसं-306/22 धारा 364/511/323 भादवि, मुअसं-1017/22 धारा 307/414/482/420 भादवि से लगातार वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सौरभ गुर्जर पुत्र नरेश निवासी हसनपुर कलाँ थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

2- 01 बाइक पैशन प्रो नम्बर- बिना नम्बर

गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-306/22 धारा 364/511/323 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

2. मुअसं-999/22 धारा 364 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

3. मुअसं-1017/22 धारा 307/414/482/420 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छतारी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री सतेन्द्र कुमार प्रभारी थाना छतारी।
- 2- उ०नि० सुमित मलिक, उ०नि० दल सिंह, उ०नि० दलवीर सिंहा।
- 3- का० निकुंज, का० हरिओम, का० मोनू।



मीडिया सेल बुलंदशहर